

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2024—वैशाख 13, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2024

क्र. 743-1961156-2024-साप्रवि (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राजेन्द्र कुमार-IV, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को ओएसडी मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी-2737-(दो-1-26-2023) दिनांक 5 मार्च 2024 के अनुक्रम में दिनांक 18 दिसम्बर 2023 से 2 जनवरी 2023 तक के अवकाश / शीतकालीन अवकाश / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011 / 4 / 2008-Estt (ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2088 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तों) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश नगदीकरण का यह पांचवा अवसर है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नमः शिवाय अरजरिया, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्र. 760-1976751-2024-साप्रवि (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अचल कुमार पालीवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को ओएसडी-कम-पी.पी.एस. मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक ए-2371 (दो-1-8-2024) दिनांक 20 मार्च 2024 के अनुक्रम में दिनांक 26 से 28 फरवरी 2024 तक तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तों) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गिरीश शर्मा, अपर सचिव।

2375

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2024

फा. क्र. 1713-2024-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है :—

क्र.	नाम तथा पद	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	सुश्री संजना सरल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बांदा जिला सागर.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय क्रमांक-2, भोपाल के रिक्त पद पर.
2.	कुमारी पुनीता चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अम्बाह जिला मुरैना.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय इंदौर के रिक्त पद पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. रघुवंशी, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 मई 2024

फा. क्र. 1864-इक्कीस-ब (एक)-2024.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)-13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 3, 5, 8, 9, 13, 19, 20, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 47, 48, 52, 53, 56, 60, 64, 71, 72, 75, 77, 82, 84 तथा 86 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनु. क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“2.	श्री कौस्तुभ खेरा, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, जोबट.	जोबट	अलीराजपुर	जोबट	जोबट
3.	सुश्री पारूल जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, अनूपपुर.	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	श्री ध्रुव अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर.	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर
8.	श्री शुभम मोदी, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सैंधवा.	सैंधवा	बड़वानी	सैंधवा	सैंधवा
9.	श्री सुरेश यादव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बैतूल.	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल
13.	श्री अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी, चौबीसवे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भोपाल.	भोपाल	भोपाल	भोपाल	भोपाल
19.	श्री भूपेन्द्र आर्य, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, पांडुर्णा.	पांडुर्णा	छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	पांडुर्णा
20.	सुश्री सुनीता रावत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	दमोह	दमोह	दमोह	दमोह
26.	श्री संजीव कुमार पिपलादिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, धार.	धार	धार	धार	धार
29.	श्री उदयाजीत कुंवर राव, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खण्डवा.	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा
30.	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना.	गुना	गुना	गुना	गुना
31.	श्रीमती आकांक्षा कत्याल, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, चाचौड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.	चाचौड़ा	गुना	चाचौड़ा	चाचौड़ा
32.	श्री अमित मालवीय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश.	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर
34.	श्री मोहित कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, हरदा.	हरदा	हरदा	हरदा	हरदा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
47.	श्री राहुल सोलंकी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, अम्बाह.	अम्बाह	मुरैना	अम्बाह	अम्बाह
48.	श्री राधाकृष्ण यादव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
52.	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पवई.	पवई	पन्ना	पवई	पवई
53.	श्री अतुल यादव (सीनियर) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, रायसेन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	रायसेन	रायसेन	रायसेन	रायसेन
56.	श्री अनुपम तिवारी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, रतलाम.	रतलाम	रतलाम	रतलाम	रतलाम
58.	श्री पन्ना नागेश, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, रीवा.	रीवा	रीवा	रीवा	रीवा
60.	श्री प्रीतम बंसल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सागर.	सागर	सागर	सागर	सागर
64.	श्रीमती स्वप्नश्री सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सीहोर.	सीहोर	सीहोर	सीहोर	सीहोर
71.	श्री वरूण कुमार शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.	आगर	शाजापुर	आगर	आगर
72.	सुश्री मनदीप कौर सेहमी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, श्योपुर.	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर
75.	श्री सोनू जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सीधी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	सीधी	सीधी	सीधी	सीधी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
77.	श्री कृष्ण अग्रवाल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बैढ़न.	बैढ़न	सिंगरौली	बैढ़न	बैढ़न
82.	श्रीमती वीणा खलखों, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया.	उमरिया	उमरिया	उमरिया	उमरिया
84.	श्रीमती पल्लवी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिरोंज.	सिरोंज	विदिशा	सिरोंज	सिरोंज
86.	श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव.	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	भीकनगांव	भीकनगांव.

F. No. 1864-XXI-B(1)-2024.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, Namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table for serial numbers 2, 3, 5, 8, 9, 13, 19, 20, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 47, 48, 52, 53, 56, 60, 64, 71, 72, 75, 77, 82, 84 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Kaustubh Khera, Civil Judge Junior Division, Jobat	Jobat	Alirajpur	Jobat	Jobat
3.	Sushri Parul Jain, II Civil Judge Junior Division Anuppur.	Anuppur	Anuppur	Anuppur	Anuppur
5.	Shri Dhruv Agrawal, I Civil Judge Junior Division, Ashoknagar.	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar
8.	Shri Shubham Modi, Civil Judge Senior Division, Sendhwa.	Sendhwa	Barwani	Sendhwa	Sendhwa

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Shri Suresh Yadav II Civil Judge Senior Division, Betul.	Betul	Betul	Betul	Betul
13.	Shri Agnindhra Kumar Dwivedi, XXIV Civil Judge Senior Division, Bhopal.	Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal
19.	Shri Bhupendra Arya, II Civil Judge Junior Division, Pandhurna.	Pandhurna	Chhindwara	Pandhurna	Pandhurna
20.	Sushri Sunita Rawat, II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Damoh.	Damoh	Damoh	Damoh	Damoh
26.	Shri Sanjeev Kumar Pipladiya, II Civil Judge Senior Division, Dhar	Dhar	Dhar	Dhar	Dhar
29.	Shri Uddyajeet Kunwar Rao, IV Civil Judge Senior Division, Khandwa.	Khandwa	Khandwa	Khandwa	Khandwa
30.	Shri Nitendra Singh Tomar, III Civil Judge Senior Division, Guna.	Guna	Guna	Guna	Guna
31.	Smt. Akansha Katyal, Additional Judge to the Court of Civil Judge Senior Division Chachoda.	Chachoda	Guna	Chachoda	Chachoda
32.	Shri Amit Malviya, IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Gwalior.	Gwalior	Gwalior	Gwalior	Gwalior
34.	Shri Mohit Kumar Shrivastava II Civil Judge Senior Division, Harda.	Harda	Harda	Harda	Harda
47.	Shri Rahul Solanki, I Civil Judge Senior Division Ambah.	Ambah	Morena	Ambah	Ambah
48.	Shri Radhakrishna Yadav, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Narsinghpur.	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
52.	Shri Krishnpal Singh Sisodia, Civil Judge Senior Division, Pawai.	Pawai	Panna	Pawai	Pawai
53.	Shri Atul Yadav (Sr.) II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Raisen.	Raisen	Raisen	Risen	Raisen
56.	Shri Anupam Tiwari, III Civil Judge Snior Division, Ratlam.	Ratlam	Ratlam	Ratlam	Ratlam
58.	Shri Panna Nagesh, III Civil Judge Senior Division, Rewa.	Rewa	Rewa	Rewa	Rewa
60.	Shri Pritam Bansal, II Civil Judge Senior Division, Sagar.	Sagar	Sagar	Sagar	Sagar
64.	Smt. Swapnashree Singh, II Civil Judge Senior Division, Sehore.	Sehore	Sehore	Sehore	Sehore
71.	Shri Varun Kumar Sharma, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Agar.	Agar	Shajapur	Agar	Agar
72.	Sushri Mandēep Kaur Sehmi, III Civil Judge Junior Division, Sheopur.	Sheopur	Sheopur	Sheopur	Sheopur
75.	Shri Sonu Jain, II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Sidhi.	Sidhi	Sidhi	Sidhi	Sidhi
77.	Shri Krishna Agrawal, III Civil Judge Senior Division Waidhan.	Waidhan	Singrauli	Waidhan	Waidhan
82.	Smt. Veena Xalxo, II Civil Judge Senior Division, Umariya	Umaria	Umaria	Umaria	Umaria
84.	Smt. Pallavi, Civil Judge Senior Division, Sironj.	Sironj	Vidisha	Sironj	Sironj
86.	Shri Rajendra Kumar Ahirwar, Civil Judge Senior Division, Bhikangaon.	Bhikangaon	Mandleshwar	Bhikangaon	Bhikangaon.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. रघुवंशी, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

बड़वाह, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र.-3569-रीडर-1-2023-क्र. 0090-B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद् ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-ढकलगांव, प. ह. नं. 40, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक (एफ. जी. डी.), एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5, सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-ढकलगांव, प.ह.नं.-40	35/2/1	0.040
योग				0.040

प्रदीप कुमार सोनी, अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी.

बड़वाह, दिनांक 13 मार्च 2024

प्ररूप "घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-739-रीडर-1-2024-रा. प्र. क्र. 0021-ब-121-2023-24.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-1897-री-1-2023, बड़वाह, दिनांक 25 मई 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम अंजरुद, प. ह. नं. 44, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16 जून 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को, भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

जिला	तहसील	अनुसूची		उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
		ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-अंजरुद, प.ह.नं.-44	250 238/3 243/1 220/2 238/5 239/1 245/1 245/2 220/1 221/1 46 38/2 39 41/1 47/1 38/1	0.385 0.650 0.630 0.220 0.080 0.160 0.250 0.460 0.150 0.010 0.040 0.021 0.150 0.030 0.290 0.300
योग . .				3.826

बड़वाह, दिनांक 3 अप्रैल 2024

प्ररूप "घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-987-रीडर-1-2024-रा. प्र. क्र. 0019-ब-121-2023-24.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-1891-री-1-2023, बड़वाह, दिनांक 25 मई 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम बासवा, प. ह. नं. 47, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16 जून 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-बासवा, प.ह.नं.-47	5/1	0.250
			5/4	0.040
			6/1	0.200
			6/3	0.155
			6/4	0.030
			7/2	0.200
			73/1	0.055
			73/6	0.050
			73/2	0.040
			73/5	0.200
			74/1	0.030
			74/3/1	0.200
			74/2	0.180
			69/1/1	0.070
			76/1	0.120
77/1	0.010			
113/1	0.500			
113/2	0.075			
114/1	0.120			
कुल योग . .				2.525

प्रताप कुमार अगास्या, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-360-भू-अर्जन-2024

सीधी, दिनांक 23 अप्रैल 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पाखण्डिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम	-	झांझ
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	00024 झांझ
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकबा 3.860 हे०

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में	भूमिस्वामी का नाम
1	2	3	4	5
1	1775	0.180	0.015	रामकली बेवा रामफल ब्रा०, निर्मला बेवा शालिकराम, आशुतोष, शिवम पिता शालिकराम, अनुराधा, राधा, प्रियंबदा, प्रियंका, प्रियुषा पिता शालिकराम ब्रा०, नंदादेवी बेवा रामप्रताप, संतोष, रावेन्द्र पिता रामप्रताप, निर्मला, गायत्री, उर्मिला, दीपा, सोहन पिता रामप्रताप तिवारी, आदित्य नारायण, देवेन्द्र पिता रामफल, मु० बेवा रामप्रभाकर ब्रा०, शिवनाथ सत्यनारायण, राघवेन्द्र पिता हरीशचन्द्र
2	1784/1/1	0.043	0.010	सतोष कुमार पिता रामकृपाल तिवारी
3	1784/1/2	0.032	0.010	मृगेन्द्र कुमार पिता गिरिजा प्रसाद द्विवेदी
4	1784/2	0.075	0.020	अशोक कुमार पिता रामकृपाल तिवारी
5	1792/1	0.412	0.052	रामकली बेवा रामफल ब्रा०, निर्मला बेवा शालिकराम, आशुतोष, शिवम पिता शालिकराम, अनुराधा, राधा, प्रियंबदा, प्रियंका, प्रियुषा पिता शालिकराम ब्रा०, नंदादेवी बेवा रामप्रताप, संतोष, रावेन्द्र पिता रामप्रताप, निर्मला, गायत्री, उर्मिला, दीपा, सोहन पिता रामप्रताप तिवारी, आदित्य नारायण, देवेन्द्र पिता रामफल, मु० बेवा रामप्रभाकर ब्रा०, शिवनाथ सत्यनारायण, राघवेन्द्र पिता हरीशचन्द्र
6	1798/1	0.800	0.040	राजेश कुमार पिता राजकरण तिवारी
7	1798/2/1	0.120	0.010	राजकरण पिता आत्माराम तिवारी
8	1798/2/2	0.040	0.040	रामविहायी पिता चिंतामणि दुबे
9	1798/3	0.760	0.040	राकेश कुमार पिता रामकरण तिवारी
11	1813/2/1	0.288	0.006	शिवेन्द्र प्रसाद पिता सियाशरण ब्रा०
12	1813/2/2	0.032	0.004	पुष्पेन्द्र कुमार पिता रामहित मिश्रा

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	भूमिस्वामी का नाम
1	2	3	4	5
13	1813/2/3	0.032	0.004	श्रीमती प्रीती मिश्रा पति अनिल मिश्रा
14	1821/1	0.030	0.007	दीपनारायण पिता रामप्रकाश तिवारी
15	1821/2	0.028	0.007	राजनारायण पिता रामप्रकाश तिवारी
16	1821/3	0.028	0.007	शिवशंकर पिता रामप्रकाश तिवारी
17	1821/4	0.028	0.007	रामकृष्ण पिता रामप्रकाश तिवारी
18	1821/5	0.008	0.008	ममता पिता रामप्रकाश तिवारी
19	1821/6	0.008	0.008	सविता पिता रामप्रकाश तिवारी
20	1822/1	0.050	0.006	रामकृष्ण पिता रमेश प्रसाद तिवारी
21	1822/2	0.040	0.006	आशकृत पिता ज्ञानेन्द्र प्रसाद तिवारी
22	1824/2	0.004	0.001	सुरेन्द्र पिता सतीश द्विवेदी
23	1824/3	0.004	0.001	माया पति अशोक कुमार तिवारी
24	1828/1/1/1	0.044	0.004	दिनेश प्रसाद पिता कमलेश्वर प्रसाद तिवारी
25	1828/1/1/1/2	0.044	0.004	आशीष कुमार पिता हरिवंश प्राद मिश्रा
26	1828/1/1/2/1	0.010	0.010	अर्चना पिता राजबहोर शुक्ला
27-	1828/1/1/2/2/1	0.005	0.005	सुरेन्द्र पिता राजबहोर शुक्ला
28	1828/1/1/2/2/2	0.005	0.005	प्रिया शुक्ला पिता राजबहोर शुक्ला
29	1828/1/1/3	0.006	0.006	आशुतोष सिंह पिता आनंद बहादुर सिंह
30	1828/1/1/4	0.004	0.004	अभिलाष सिंह पिता आनंद बाहदुर सिंह
31	1828/1/1/5	0.004	0.004	बालभूषण तिवारी पिता भोला प्रसाद तिवारी
32	1828/1/1/6	0.004	0.004	साधना पति पुष्पराज मणि तिवारी
33	1828/1/1/7	0.004	0.004	विमला पति जगदीश प्रसाद गौतम
34	1828/1/1/8	0.004	0.004	संदीप पिता विनय गौतम
35	1828/1/1/9	0.004	0.004	प्रभात कुमार पिता छोटेलाल शुक्ला
36	1828/1/1/10	0.004	0.004	रुद्रदेव पिता जगन्नाथ मिश्रा
37	1828/1/1/11	0.004	0.004	आकाश पिता पद्यनाथ मिश्रा
38	1828/1/1/12	0.004	0.004	सावित्री पति कमलेश त्रिपाठी
39	1828/1/1/13	0.010	0.010	सत्यभन पिता नागेश्वर प्रसाद अग्निहोत्री
40	1828/1/2/1	2.002	0.010	योगेन्द्र प्रसाद पिता कमलेश्वर प्रसाद तिवारी
41	1828/1/2/2	0.020	0.010	विद्याभूषण पिता रामलाल तिवारी 1/5, प्रकाश कुमार, राकेश कुमार द्विवेदी 1/5, मनोज कुमार पिता प्रबल कुमार द्विवेदी 1/5, अजय कुमार पिता प्रबल कुमार द्विवेदी 1/5, सत्यम कुमार पिता राकेश कुमार द्विवेदी 1/5
42	1828/1/2/3	0.010	0.010	नीलू पति विजय कुमार मिश्रा
43	1828/1/2/4/1	0.010	0.010	अजय पिता गंगा प्रसाद पाण्डेय
44	1828/1/2/4/2	0.002	0.002	सोनु पिता गंगा प्रसाद पाण्डेय

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	भूमिस्वामी का नाम
1	2	3	4	5
45	1828/1/2/4/3	0.004	0.004	अखिलेश पिता रामकलेश पाण्डेय
46	1828/1/2/4/4	0.002	0.002	मनोज कुमार पिता रामखेलावन पाण्डेय
47	1828/1/2/4/5	0.002	0.002	सालिनी पिता मुनीन्द्र त्रिपाठी ना०सं० मुनीन्द्र त्रिपाठी
48-	1828/1/2/5	0.020	0.010	बृजेन्द्र कुमार पिता रामबहोर शुक्ला
49	1828/1/2/6	0.010	0.010	अरविन्द सिंह पिता हर्षोविन्द सिंह
50	1828/2/1/1/1/1/1	0.356	0.004	देवेन्द्र कुमार पिता रामनिवास ब्रा०
51	1828/2/1/1/1/1/2	0.356	0.004	विनोद कुमार पिता रामनिवास ब्रा०
52	1828/2/1/1/2	0.010	0.010	अभय पिता नारेन्द्र कुमार शुक्ला
53	1828/2/1/1/3/1	0.006	0.006	शालेन्द्र पिता संजय कुमार शुक्ला
54	1828/2/1/1/3/2	0.004	0.004	विमलेश कुमार पिता संजय कुमार शुक्ला
55	1828/2/1/1/4	0.494	0.004	हरिवंश पिता हीरालाल द्विवेदी
56	1828/2/1/1/5	0.294	0.004	सुवंशचन्द्र पिता अम्बिका प्रसाद द्विवेदी
57	1828/2/1/1/6	0.004	0.004	अखिलेश पिता हीरालाल द्विवेदी
58	1828/2/1/1/7	0.010	0.010	पंकज कुमार पिता सुशील कुमार मिश्रा
59	1828/2/1/1/8	0.010	0.010	विद्याभूषण पिता सुशील कुमार मिश्रा
60	1828/2/1/1/9	0.010	0.010	प्रिया पिता शिवेन्द्र प्रसाद तिवारी
61	1828/2/1/1/10	0.004	0.004	यदुवंश प्रसाद पिता अम्बिका प्रसाद ब्रा०
62	1828/2/1/1/11	0.004	0.004	सुभाषचन्द्र पिता हीरालाल द्विवेदी
63	1828/2/1/1/12	0.004	0.004	श्रीमती पुनीता पति आनंद बिहारी मिश्रा
64	1828/2/1/1/13	0.004	0.004	सुप्रकाश पिता अम्बिका प्रसाद द्विवेदी
65	1828/2/1/1/14	0.004	0.004	राजेश कुमार पिता सुभाषचन्द्र द्विवेदी
66	1828/2/2/1	0.004	0.004	सुचिता पिता इन्द्रभजन पाण्डेय
67	1828/2/2/2	0.004	0.004	मुदिता पिता इन्द्रभजन पाण्डेय
68	1828/2/2/3	0.006	0.006	मोनिका पिता इन्द्रभजन पाण्डेय
69	1828/2/2/4	0.006	0.006	अनामिका पिता इन्द्रभजन पाण्डेय
70	1828/2/3	0.008	0.008	अरुणेश कुमार पिता देवेन्द्र कुमार मिश्रा
71	1828/2/3/2	0.005	0.005	शैलेश कुमार पिता अश्वनी प्रसाद पाण्डेय
72	1828/2/3/3	0.005	0.005	शान्ती पाण्डेय पति अश्वनी प्रसाद पाण्डेय
73	1828/2/3/4	0.005	0.005	विकास सिंह पिता शिवनरेश सिंह
74	1828/2/3/5	0.005	0.005	यदुवंश पिता सतेन्द्र सिंह
75	1828/2/3/6	0.004	0.004	प्रदीप पिता भुवनेश्वर मिश्रा ब्रा०
76	1828/2/4/1	0.014	0.005	अमन पिता विनोद कुमार मिश्रा
77	1828/2/4/2	0.004	0.004	नीलकण्ठ पिता नारायण तिवारी
78	1828/2/4/3	0.004	0.004	जितेन्द्र पिता सुरेश प्रसाद द्विवेदी
79	1828/2/4/4	0.004	0.004	रावेन्द्र पिता सुरेश प्रसाद द्विवेदी

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	भूमिस्वामी का नाम
1	2	3	4	5
80	1828/2/4/5	0.004	0.004	शिवेन्द्र पिता सुरेश प्रसाद द्विवेदी
81	1828/2/4/6	0.002	0.002	बुजेन्द्र पिता सुरेश प्रसाद द्विवेदी
82	1828/2/5/1	0.010	0.010	परिक्षित पिता बुद्धसेन तिवारी
83	1828/2/5/2	0.010	0.010	जितेन्द्र कुमार पिता सुरेश प्रसाद द्विवेदी
84	1828/2/6/1	0.012	0.010	पवन पिता पुष्पेन्द्रमणि ब्रा०
85	1828/2/6/2	0.004	0.004	प्रिंसू तिवारी पिता पुष्पराजमणि तिवारी
86	1828/2/6/3	0.006	0.006	सैलजा पति राममणि तिवारी
87	1836/1	3.550	0.020	रमेश पिता रामस्वरूप राम ब्रा०
88	1836/2	0.115	0.020	ज्ञानेन्द्र प्रसाद पिता जगदम्बा प्रादस ब्रा०
89	1836/3/1	0.020	0.010	आशीष कुमार पिता अशोक कुमार तिवारी
90	1836/3/2	0.020	0.010	काजल पिता अशोक कुमार तिवारी
91	1836/3/3	0.010	0.010	आयूष कुमार पिता अशोक कुमार तिवारी
92	1837/1/1	0.030	0.005	दीपनारायण पिता रामप्रकास तिवारी
93	1837/1/2	0.028	0.005	रामकृष्ण पिता रामप्रकास तिवारी
94	1837/2/1	0.028	0.005	अशोक कुमार पिता रामाश्रय तिवारी
95	1837/2/2	0.020	0.005	आशीष कुमार पिता रामाश्रय तिवारी
96	1837/2/3	0.010	0.005	मूरत पिता रामाश्रय तिवारी
97-	1838/1	9.988	0.005	कामता प्रसाद, बैजनाथ, उमादेवी, उमा देवी सीता पिता वंशमणि प्रसाद
98	1838/2	0.010	0.005	दिनेश पाल पिता लखवू पाल
99	1838/3	0.010	0.005	संजीव पिता विनोद कुमार दुबे
100	1838/4	0.010	0.005	सुनील पिता कान्ती कुमार दुबे
101	1838/5	0.010	0.005	नारेन्द्र कुमार पिता देवेन्द्र शुक्ला
102	1838/6	0.010	0.004	पंकज पिता कृष्ण कुमार दुबे
103	1838/7	0.010	0.004	सुशील पिता सुरेन्द्र त्रिपाठी
104	1838/8	0.010	0.004	आशीष पिता सत्यनारायण गुप्ता
105	1838/9	0.010	0.004	उमा पत्नी संतोष कुमार गुप्ता
106	1838/10	0.010	0.004	दशरथ पिता रामजी गुप्ता
107	1838/11	0.010	0.004	मनोज पिता द्वारिका प्रसाद पाण्डेय
108	1838/12	0.010	0.004	अजय पिता एम०एल० गुप्ता
109	1838/13	0.010	0.004	आनन्द राजन पिता संदीप कुमार तिवारी
110	1838/14	0.010	0.004	मोहन लाल पिता जगदीश प्रसाद गुप्ता
111	1838/15	0.004	0.003	शोभकांत पिता बालमिक कुशवाहा
112	1838/16	0.004	0.003	अनिकेत शेखर पिता संजीव कुमार श्रीवास्तव
113	1838/17	0.004	0.003	विमला पिता सुदर्शन प्रसाद गुप्ता

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	भूमिस्वामी का नाम
1	2	3	4	5
114	1839/1	0.540	0.058	वंशमणि पिता यज्ञनारायण तिवारी
115	1839/2	0.050	0.010	रामकृष्ण पिता रमेश प्रसाद तिवारी
116	1839/3	0.010	0.010	जयकृष्ण पिता रमेश प्रसाद तिवारी
117	1839/4	0.010	0.010	बालकृष्ण पिता रमेश प्रसाद तिवारी
118	1839/5	0.010	0.010	अनुराधा पिता रमेश प्रसाद तिवारी
119	1839/6	0.010	0.010	दियाकर प्रसाद पिता रामशिरोमणि तिवारी
120	1839/7	0.010	0.010	अम्बरीश पिता रामशिरोमणि तिवारी
121	1839/8	0.010	0.010	अम्बरीश पिता रामशिरोमणि तिवारी
122	1839/9	0.010	0.010	मु० सुधा पति रामसखा तिवारी ब्रा०
123	1839/10	0.010	0.010	रामावुज पिता रामशिरोमणि तिवारी
124	1839/11	0.010	0.010	आरती पिता रामशिरोमणि तिवारी
125	1839/12	0.010	0.010	सुनीती पिता रामस्वरूप तिवारी
126	1839/13	0.010	0.010	कमला पिता रामस्वरूप तिवारी
127	1846/1/1	1.860	0.024	बद्री प्रसाद पिता शियाशरण राम ब्रा०
128	1846/1/2	0.020	0.004	रचना पिता बद्री प्रसाद ब्रा०
129	1846/1/3	0.020	0.004	धीरेन्द्र पिता बद्री प्रसाद ब्रा०
130	1846/1/4	0.020	0.004	नीलू पिता बद्री प्रसाद ब्रा०
131	1846/1/5	0.020	0.004	रंजना पिता बद्री प्रसाद ब्रा०
132	1846/1/6	0.020	0.004	अंजना पिता बद्री प्रसाद ब्रा०
133	1846/2/1/1	0.024	0.002	रविनाथ पिता रामनिवास तिवारी
134	1846/2/1/2	0.024	0.004	मुकेश कुमार पिता रामनिवास तिवारी
135	1846/2/1/3	0.024	0.002	प्रेमवती पिता रामनिवास तिवारी
136	1846/2/1/4	0.024	0.002	अर्चना पिता रामनिवास तिवारी
137	1846/2/1/5	0.024	0.002	प्रदीप पिता रामनिवास तिवारी
138	1846/2/2	0.324	0.004	दिनकर पिता रामउजागर तिवारी
139	1846/2/3	0.644	0.050	संजय पिता राजीवलोचन तिवारी
140	1971/2	0.032	0.013	रावेन्द्र पिता शिवभजन द्विवेदी
141	3517/1/1/1/1	1.932	0.317	सतेन्दु सिंह पिता श्री निवास सिंह बाघेल अनन्त पिता अखिलेन्द्र शुक्ला, कर्ण पिता शिवेन्द्र प्रताप सिंह, गीता पत्नी दिनेश गुप्ता, मुकेश पिता बैजनाथ सोनी, वीकल पिता लालबहादुर सिंह, विनय पिता अनिल सिंह, प्रकाश पिता फूलचन्द्र गुप्ता, वन्दना पत्नी अरुण शुक्ला, प्रदीप पिता इन्द्रपाल चौधरी, रोहित पिता शत्रुघन प्रसाद पाण्डेय, प्रमोद पिता इन्द्रपाल चौधरी, राजेश पिता रामलखन कुशवाहा, ज्योती पिता राममिलन मिश्रा, राघुवेन्द्र पिता

				<p>शेषमणि शुक्ला, कृष्णदेव पिता हीरालाल मिश्रा, जीवेन्द्र पिता रामायण प्रसाद पाठक, मनोज पिता सुदामा तिवारी, जागृति पत्नी सुरेशमणि त्रिपाठी, शशांक पिता सुरेशमणि त्रिपाठी, उमेश पिता रमाकान्त शुक्ला, पूनम पिता उमेश कुमार शुक्ला, देवेन्द्र पिता हनुमान प्रसाद मिश्रा, प्रशान्त पिता सुरेश मणि त्रिपाठी, वीरेन्द्र पिता विप्राण सिंह, उदयजीत पिता गोमती सिंह, अन्जुली पिता आदित्य प्रसाद त्रिपाठी, गौरव पिता राजेश पाण्डेय, हर्ष पिता विनोद सिंह, जितेन्द्र पिता लक्ष्मीकान्त पाण्डेय, बृजेश पिता श्रीनिवास पाण्डेय, पुष्पाञ्जली पत्नी विनोद सिंह, जयवेन्द्र पिता उदयजीत सिंह, अरविन्द पिता राजेन्द्र कुमार पाठक, सूरज पिता दिवाकर पाण्डेय, गायत्री पत्नी चक्रपाणि पाण्डेय, प्रियंका पत्नी देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, अंकित पिता शालिक प्रसाद पाण्डेय, संतोष पिता महेन्द्र कुमार द्विवेदी, रोहित पिता रामबहोर गुप्ता, आरती पिता काशी प्रसाद गुप्ता, अनुराधा पत्नी रविशंकर प्रसाद मिश्रा, काशी पिता गणेश प्रसाद गुप्ता, कृष्णकान्त पिता सूर्यप्रसाद पाण्डेय, गोविन्द नारायण पिता बिहारीलाल मिश्रा, सौरव पिता शशिकर पाण्डेय, दुर्गेशनन्दनी पिता विजयशंकर गुप्ता, धीरज पिता इन्द्रदत्त गौतम, परीक्षित पिता विनय कुमार पाण्डेय, रिसव पिता प्रसन्न कुमार मिश्रा, संजीव पिता शत्रुसूदन प्रसाद शुक्ला, राजललन पिता नागेश प्रसाद साकेत, अमित पिता अनिल पाण्डेय, गोपाल पिता तीरथ प्रसाद गुप्ता, मनोज पिता नथूलाल चौधरी, दीपक पिता केशव प्रसाद सौधिया, गोपालशरण पिता रामनरेश त्रिपाठी, अशरफ़ीलाल पिता श्यामलाल गुप्ता, रीता पत्नी अशोक कुमार गुप्ता, अलीक पिता आरपी पाण्डेय, गौरव पिता शशिकर पाण्डेय, अरविन्द पिता रामबहोरी गुप्ता, राजनन्दनी पिता विजयशंकर गुप्ता मयंक पिता रामकिशोर गुप्ता, शिवम पिता सनत कुमार गुप्ता, सिद्धार्थ पिता राकेश कुमार मिश्रा, अमित पिता राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, विधाता पिता सुरुजभान कोल, गायत्री पिता राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, अमित पिता अनिल शुक्ला, अंकित पिता प्रभाकर प्रसाद पाण्डेय</p>
142	3517/1/1/1/1/2	0.004	0.004	नृपेन्द्र सिंह पिता सुदामा सिंह
143	3517/1/1/1/1/2	0.048	0.048	अनामिका पिता उदयभान पटेल
144	3517/1/1/1/3/1	0.004	0.004	प्रतीभा पिता उदयभान पटेल
145	3517/1/1/1/3/1/2	0.004	0.004	सुरेश पिता रामायण प्रसाद अग्निहोत्री
146	3517/1/1/1/3/1/3	0.004	0.004	संदीप पिता रामनिवास ब्रा०
147	3517/1/1/1/3/1/4	0.004	0.004	सुनील पिता रामायण प्रसाद अग्निहोत्री

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	भूमिस्वामी का नाम
1	2	3	4	5
148	3517/1/1/1/3/1/5	0.002	0.002	शिशिर पिता विष्णुगोपाल मिश्रा
149	3517/1/1/1/3/1/6	0.002	0.002	क्षिप्रा पत्नी शिरीश मिश्रा
150	3517/1/1/1/3/1/7	0.004	0.004	मुकेश पिता राजराम पाण्डेय
151	3517/1/1/1/3/1/8	0.004	0.004	प्रदीप पिता जितेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री
152	3517/1/1/1/3/2/1	0.004	0.004	आशीष पिता नारेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री
153	3517/1/1/1/3/2/2	0.004	0.004	जामुना प्रसाद पिता जागेश्वर पाल
154	3517/1/1/1/3/2/3	0.004	0.004	सुखलाल पिता जागेश्वर पाल
155	3517/1/1/1/3/2/4	0.004	0.004	जयराम पिता शशिकमल पाण्डेय
156	3517/1/1/1/3/3	0.004	0.004	सुदामा प्रसाद पिता भगवानदास गुप्ता
157	3517/1/1/1/3/2/5	0.024	0.024	शिवम पिता उदयभान पटेल
157	3517/1/1/2	0.032	0.032	राजकुमार पिता केमला प्रसाद मिश्रा, कुलदीप पिता शिव प्रसाद नामदेव, ज्योती पिता शिव प्रसाद नामदेव, सरोज पत्नी उमाशंकर पाण्डेय
158	3517/1/1/3/1	0.008	0.008	अविनाश पिता गिरीश कुमार तिवारी, आकांक्षा पिता महेन्द्र सिंह, विकास पिता संखू बहादुर, प्रिया पत्नी महेन्द्र सिंह, अंशुमान सिंह पिता सत्येन्द्र सिंह, अमिल पिता चक्रधर सिंह, अक्षय प्रताप पिता महेन्द्र सिंह
159	3517/1/1/3/2	0.004	0.004	ज्ञानेश्वर पिता हुबलाल पाण्डेय
160	3517/1/1/3/3	0.004	0.004	लालसजीवन पिता नन्दलाल शर्मा
161	3517/1/1/3/4	0.004	0.004	जागेश्वर पिता हुबलाल पाण्डेय
162	3517/1/1/3/5	0.004	0.004	बालेश्वर पिता हुबलाल पाण्डेय
163	3517/1/1/3/6	0.004	0.004	बंशबहोर पिता महावीर शुक्ला
164	3517/1/1/3/7	0.004	0.004	भावना पत्नी कलपधर शुक्ला
165	3517/1/1/3/8	0.004	0.004	पुष्पांजलि पिता राधवेन्द्र द्विवेदी
166	3517/1/1/3/9	0.004	0.004	शुभम पिता संजय शर्मा
167	3517/1/1/3/10	0.004	0.004	ज्योतीन्द्र पिता राजकुमार मिश्रा
168	3517/1/1/3/11	0.004	0.004	अशोक पिता देवीचरण शर्मा
169	3517/1/1/4/1/1	0.040	0.040	साक्षी पत्नी अंशुमान सिंह, बृजेश कुमार पिता सुरेश प्रसाद शुक्ला, प्रदीप कुमार पिता रामशखा शुक्ला, कृष्ण कुमार पिता रामशखा शुक्ला, शिखा पाण्डेय पिता मनीष पाण्डेय बासुदेव शर्मा पत्नी छेदीराम शर्मा, उर्मिला पत्नी मुनेश प्रसाद पाण्डेय
170	3517/1/1/4/1/2	0.004	0.004	अम्बुज शुक्ला पिता आनंद प्रसाद शुक्ला
171	3517/1/1/4/2	0.004	0.004	अखण्डदेव पिता अखिलेन्द्र शुक्ला
172	3517/1/1/5/1	0.002	0.002	कुलभूषण शुक्ला पिता आनन्द शुक्ला

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	भूमिस्वामी का नाम
1	2	3	4	5
173	3517/1/1/5/2	0.004	0.004	पारस चौधरी पिता मुकेश कुमार चौधरी
174	3517/1/1/5/3	0.004	0.004	अमित कुमार पिता रामप्रसाद मिश्रा
175	3517/1/1/5/4	0.004	0.004	आनंद कुमार पिता रामप्रसाद मिश्रा
176	3517/1/1/5/5	0.004	0.004	बालकृष्ण शुक्ला पिता अच्छेलाल शुक्ला
177	3517/1/1/5/6	0.004	0.004	योगिता सिंह पति योगेश सिंह परिहार
178	3517/1/1/5/7	0.004	0.004	अभिषेक पयासी पिता सत्यनारायण पयासी
179	3517/1/1/5/8	0.004	0.004	संदीपन सिंह पिता योगेन्द्र सिंह परिहार
180	3517/1/1/5/9	0.004	0.004	प्रशान्त पिता नन्दकिशोर मिश्रा
181	3517/1/1/5/10	0.004	0.004	जितेन्द्र कुमार पिता रामाधार सोनी
182	3517/1/1/5/11	0.004	0.004	सुरेश कुमार पिता भौदू प्रसाद लोधी
183	3517/1/1/5/12	0.004	0.004	विभाजय सिंह पिता शतेन्द्र सिंह परिहार
184	3517/1/1/5/13	0.004	0.004	अनुपमा सोनी पिता मोहनलाल सोनी
185	3517/1/1/5/14	0.004	0.004	आशीष शर्मा पिता जय प्रकाश शर्मा
186	3517/1/1/5/15	0.004	0.004	संजय शर्मा पिता रामभजन शर्मा
187	3517/1/1/5/16	0.004	0.004	गीता तिवारी पिता सुरेन्द्र कुमार तिवारी
188	3517/1/1/5/17	0.004	0.004	बृजकिशोर पिता रामरतन कुशवाहा
189	3517/1/1/5/18	0.004	0.004	शिवराज पटेल पिता जानकी प्रसाद पटेल
190	3517/1/1/5/19	0.004	0.004	श्यामलाल पिता रामखेलावन कुशवाहा
191	3517/1/1/5/20	0.004	0.004	राजमन पिता श्यामलाल लोधी
192	3517/1/1/5/21	0.004	0.004	पंकज पिता उग्रसेन शुक्ला
193	3517/1/1/5/22	0.004	0.004	प्रशान्त पिता सुनील तिवारी
194	3517/1/1/5/23	0.004	0.004	विष्णु सिंह पिता देवी सिंह
195	3517/1/1/5/24	0.004	0.004	पुष्पेन्द्र पिता रामनरेश मिश्रा
196	3517/1/1/5/25	0.004	0.004	विवेक पिता रामाशंकर त्रिपाठी
197	3517/1/1/5/26	0.004	0.004	हिमाब्धू पिता प्रदीप दुबे
198	3517/1/1/5/27	0.002	0.004	संदीप सिंह पिता पिता बलराज सिंह
199	3517/1/1/5/28	0.004	0.004	उत्कर्ष सिंह पिता वंशलाल सिंह चौहान
200	3517/1/1/5/29	0.004	0.004	अशुतोष सिंह पिता प्रभाकर सिंह
201	3517/1/1/5/30	0.004	0.004	राजेश सिंह पिता इन्द्रराज सिंह
202	3517/1/1/5/31	0.004	0.004	अनिल कुमार पिता सूरजदीन बागरी
203	3517/1/1/5/32	0.004	0.004	शुभम सिंह पिता रामराज सिंह
204	3517/1/1/5/33	0.004	0.004	रामजी पाण्डेय पिता रामानुज पाण्डेय
205	3517/1/1/5/34	0.004	0.004	राजेश कुमार पिता रामभगत त्रिपाठी
206	3517/1/1/5/35	0.004	0.004	रेखा गौतम पति अशोक गौतम

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	भूमिस्वामी का नाम
1-	2	3	4	5
207	3517/1/1/5/36	0.004	0.004	राजेश कुमार पिता रामनरेश मिश्रा
208	3517/1/1/5/37	0.004	0.004	आदर्श पिता राकेश प्रसाद गौतम
209	3517/1/1/5/38	0.004	0.004	कृष्ण कुमार पिता रामभुवन मिश्रा
210	3517/1/1/5/39	0.004	0.004	विनीत कुमार पिता राजेन्द्र कुमार गुप्ता
211	3517/1/1/5/40	0.004	0.004	संतोष कुमार पिता विजय कुमार मिश्रा
212	3517/1/1/5/41	0.004	0.004	नीलम सिंह पिता अनुज प्रताप सिंह
213	3517/1/1/5/42	0.004	0.004	दीपिका सिंह पिता देवेन्द्र सिंह
214	3517/1/1/5/43	0.004	0.004	प्रियंका सिंह पिता देवेन्द्र सिंह
215	3517/1/1/5/44	0.004	0.004	अनीता सिंह पिता कृष्णपाल सिंह
216	3517/1/1/5/45	0.004	0.004	बृजेन्द्र सिंह पिता चन्द्रभान सिंह
217	3517/1/1/5/46	0.004	0.004	प्रतिमा सिंह पिता अतुल सिंह
218	3517/1/1/5/47	0.004	0.004	गरिमा सिंह पति अभिषेक सिंह
219	3517/1/1/5/48	0.004	0.004	पद्मिनी पयासी पिता अरुण पाण्डेय
220	3517/1/1/5/49	0.004	0.004	धर्मेन्द्र सिंह पिता राजेन्द्र सिंह
221	3517/1/1/5/50	0.004	0.004	रेसू गर्ग पिता अरुणेश गर्ग
222	3517/1/1/5/51	0.004	0.004	विजय सिंह पिता सीताराम सिंह
223	3517/1/2/1	1.846	0.200	राजीव मिश्रा पिता अयोध्या प्रसाद मिश्रा, इन्द्रमणि पाण्डेय सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, शेषमणि पिता सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, राजकुमार शर्मा पिता चन्द्रिका प्रसाद शर्मा, ऋषभदेव पिता राधेरमण सिंह, विनय पिता नरेन्द्र सिंह, रमेश पिता राजकुमार सिंह, अखिलेश पिता शत्रुघन प्रसाद पाण्डेय अम्बिकेश सिंह पिता ज्ञानेन्द्र सिंह
224	3517/1/2/2	0.008	0.008	दिव्यांश पिता दिनेश कुमार निगम
225	3517/1/2/3	0.004	0.004	सुबोध पिता केशव प्रसाद निगम
226	3517/1/2/4	0.004	0.004	सुषमा पिता प्रभाकर निगम
227	3517/1/2/5	0.004	0.004	पद्मेश पिता दिलीप कुमार निगम
228	3517/1/2/6	0.004	0.004	प्रज्जवल पिता कमलेश रेकवार
229	3517/1/2/7	0.004	0.004	शशिकान्त पिता प्रेमलाल विश्वकर्मा
230	3517/1/2/8	0.004	0.004	राजेन्द्र पिता सुन्दरलाल विश्वकर्मा
231	3517/1/2/9	0.002	0.002	अनीष कुमार पिता चन्द्रभान नामदेव
232	3517/1/2/10	0.004	0.004	हरिप्रताप सिंह पिता जिकेश सिंह
233	3517/1/2/11	0.004	0.004	किरण सिंह पति आशीष सिंह
234	3517/1/2/12	0.004	0.004	अखिलेश पिता काशी प्रसाद त्रिपाठी
235	3517/1/2/13	0.004	0.004	सियालली पति सुरेश प्रताप सिंह

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	भूमिस्वामी का नाम
1	2	3	4	5
236	3517/1/2/14	0.004	0.004	लालबहादुर सिंह पिता केमला सिंह
237	3517/1/2/15	0.004	0.004	शिवम सिंह पिता अनिल सिंह
238	3517/1/2/16	0.004	0.004	शुभम सिंह पिता अवधेश प्रताप सिंह
239	3517/1/2/17	0.004	0.004	जीतेन्द्र सिंह पिता यज्ञनायण सिंह
240	3517/1/2/18	0.004	0.004	सुधीर सिंह पिता रामचरण सिंह
241	3517/1/2/19	0.004	0.004	सुरेन्द्र सिंह पिता अमृतलाल सिंह
242	3517/1/2/20	0.004	0.004	राघवेन्द्र सिंह पिता कमलभान सिंह
243	3517/1/2/21	0.004	0.004	ध्रुव सिंह पिता सुग्रीव सिंह
244	3517/1/2/22	0.004	0.004	सुदर्शन सिंह पिता कमल सिंह
245	3517/1/2/23	0.004	0.004	अशोक सिंह पिता उदयभान सिंह
246	3517/1/2/24	0.004	0.004	अनिल कुमार पिता करुणाकान्त मिश्रा
247	3517/1/2/25	0.004	0.004	ज्योत्सना सिंह पिता अनिल सिंह
248	3517/1/2/26	0.004	0.004	अभिनव सिंह पिता अनिल सिंह
249	3517/1/2/27	0.010	0.010	यदुवंश कुशवाहा पिता रामाधार कुशवाहा
250	3517/1/2/28	0.010	0.010	हरीश कुमार पिता शेषमणि शर्मा
251	3517/1/2/29	0.028	0.028	रुचि सिंह पति राकेश सिंह चंदेल
252	3517/1/2/30	0.004	0.004	गौरव सिंह पिता उमेश प्रताप सिंह
253	3517/1/3/1	1.452	0.200	मारकण्डेय पिता शीवेन्द्र प्रताप सिंह, संजय पिता दिनेश सिंह, संजीव पिता दिनेश सिंह
254	3517/1/3/1/1/2	0.010	0.010	अमित कुमार पिता ओम प्रकाश पाण्डेय
255	3517/1/3/2	0.010	0.010	गौरव सिंह पिता राजेन्द्र सिंह हारी
256	3517/1/3/3	0.010	0.010	कुलदीप पिता गणेश प्रसाद शुक्ला
257	3517/1/3/4	0.010	0.010	नवीन सिंह पिता शिव बहादुर सिंह चंदेल सिंह
258	3517/1/3/5	0.010	0.001	श्रीमती शीलिनी पिता अनिल त्रिपाठी
259	3517/1/3/6	0.004	0.004	दिव्येश कुमार पिता दिनेश कुमार निगम
260	3517/1/3/7	0.010	0.010	अंकित पिता नीलेन्द्र सिंह
261	3517/1/3/8	0.010	0.010	कीर्ति सिंह पिता भूपेन्द्र सिंह
262	3517/1/3/9	0.004	0.004	धनेश कुमार पिता यज्ञभान पटेल
263	3517/1/3/10	0.004	0.004	किरण शर्मा पति अम्बरीश शर्मा
264	3517/1/3/11	0.004	0.004	संदीप कुमार पिता सूर्य प्रकाश तिवारी
265	3517/1/3/12	0.004	0.004	रामबाई पति अंजनी लाल गुप्ता
266	3517/1/3/13	0.010	0.010	आशीष कुमार सिंह पिता गोपाल शरण सिंह
267	3517/1/3/14	0.010	0.010	पूनम सिंह पिता मारखन सिंह
268	3517/1/3/15	0.010	0.010	मनीष कुमार सिंह पिता विजयपाल सिंह गहरवार

क्र.	असरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में	भूमिस्वामी का नाम
1	2	3	4	5
269	3517/1/3/16	0.004	0.004	अजीत सिंह पिता शेषपाल सिंह गहरवार
270	3517/1/3/17	0.004	0.004	आकांक्षा पिता आनंद शुक्ला
271	3517/1/3/18	0.004	0.004	उपेन्द्रनाथ पिता द्वारिका शुक्ला
272	3517/1/3/19	0.004	0.004	आदर्श सिंह पिता देवेन्द्र सिंह गहरवार
273	3517/1/3/20	0.004	0.004	स्वप्निल सिंह पिता प्रमोद सिंह गहरवार
274	3517/1/3/21	0.004	0.004	उत्कर्ष सिंह पिता हीरेन्द्र सिंह बाघेल
275	3517/1/3/22	0.004	0.004	गीता सिंह पति लखन सिंह परिहार
276	3517/1/4/1/1	1.296	0.200	दिलीप पिता शीवेन्द्र प्रताप सिंह, विवेक सिंह पिता विनोद सिंह, गोपेक्ष सिंह पिता विनोद सिंह, ममता सिंह पिता गोपेन्द्र सिंह, अर्ची सिंह पिता अरुण सिंह
277	3517/1/4/2	0.004	0.004	अनिल पिता रमेश प्रसाद शुक्ला
278	3517/1/4/3/1	0.028	0.028	निशा सिंह पिता ज्ञानेन्द्र सिंह
279	3517/1/4/3/2	0.004	0.004	सुरेश कुमार सिंह पिता राधिकालाल सिंह
280	3517/1/4/4	0.010	0.010	प्रियंका सिंह पिता प्रमोद सिंह
281	3517/1/4/5	0.010	0.010	सौरभ सिंह पिता प्रमोद सिंह
282	3517/1/4/6	0.004	0.004	शहबाज खान रासिद खॉ
283	3517/1/4/7	0.004	0.004	कृष्णराज पिता रामानुज तिवारी
284	3517/1/4/8	0.004	0.004	भूपेन्द्र सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह
285	3517/1/4/9	0.004	0.004	शैलेन्द्र सिंह पिता राजेन्द्र सिंह
286	3517/1/4/10	0.004	0.004	गोविन्द सिंह पिता परमेश्वरदीन सिंह
287	3517/1/4/11	0.004	0.004	विजेता सिंह पिता निपेन्द्र सिंह
288	3517/1/4/12	0.004	0.004	नेहा सिंह पिता ज्ञान सिंह
289	3517/1/4/13	0.004	0.004	उदय कुमार पिता शृजलाल वर्मन
290	3517/1/4/14	0.010	0.010	सुनील सिंह पिता शीवेन्द्र सिंह
291	3517/1/4/15	0.010	0.010	कुलदीप सिंह पिता जानकी शरण सिंह
292	3517/1/4/16	0.004	0.004	प्रकाश सिंह पिता महेन्द्र सिंह सेंगर
293	3517/1/4/17	0.004	0.004	धर्मजीत सिंह पिता अर्जुन सिंह
294	3517/1/4/18	0.004	0.004	अनुराधा पिता पटनी दीपेन्द्र सिंह
295	3517/1/4/19	0.004	0.004	नीरज सिंह पिता शीवेन्द्र सिंह
296	3517/1/5/1/1	1.008	0.200	शिवम पिता अरुण कुमार शुक्ला, सुमन पिता विश्वनाथ प्रसाद शुक्ला, आकाश पिता रमाकांत मिरा, धर्मेन्द्र कुमार पिता रामखेलावन प्रसाद मिश्रा, क्षीप्रा पिता नारेन्द्र सिंह, अनिल कुमार पिता रामशिरोमणि पटेल, रुचि सिंह पिता उमेश प्रताप सिंह, अंकिता पिता अरुण सिंह, अनिकेत सिंह पिता ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, विपिन सिंह पिता बृजेन्द्र सिंह, नारेन्द्र पिता रामबहादुर सिंह, अनुराग सिंह पिता भूपेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभाकर सिंह पिता बृज गोपाल सिंह, सुवारक खान पिता हफीज खान, कर्ण सिंह पिता शिवेन्द्र प्रताप सिंह
297	3517/1/5/2	0.010	0.010	अनन्या सिंह पिता ज्ञानेन्द्र सिंह

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	भूमिस्वामी का नाम
1	2	3	4	5
298	3517/1/5/3	0.020	0.020	कर्ण सिंह पिता शीवेन्द्र सिंह
299	3517/1/5/4	0.010	0.010	कर्ण सिंह पिता शीवेन्द्र सिंह
300	3517/1/5/5	0.010	0.010	कर्ण सिंह पिता शीवेन्द्र सिंह
301	3517/1/5/6	0.010	0.010	कर्ण सिंह पिता शीवेन्द्र सिंह
302	3517/1/5/7	0.010	0.010	कर्ण सिंह पिता शीवेन्द्र सिंह
303	3517/1/5/8	0.010	0.010	कर्ण सिंह पिता शीवेन्द्र सिंह
304	3517/1/5/9	0.010	0.010	कर्ण सिंह पिता शीवेन्द्र सिंह
305	3517/1/5/10	0.010	0.010	कर्ण सिंह पिता शीवेन्द्र सिंह
306	3517/1/5/11	0.010	0.010	शिर्वाचन पिता बसन्त कुमार पटेल
307	3517/1/5/12	0.010	0.010	महिमा सिंह पिता इन्द्रश्रवण सिंह
308	3517/1/5/13	0.010	0.010	ज्योति सिंह पिता अखिलेश सिंह
309	3517/1/5/14	0.010	0.010	पुष्पेन्द्र सिंह पिता मोतीलाल सिंह
310	3517/1/5/15	0.004	0.004	विश्वनाथ पिता परमेश्वरदीन शुक्ला
311	3517/1/5/16	0.004	0.004	गुजन पति ऋषि त्रिपाठी
312	3517/1/5/17	0.004	0.004	रामभुवन पिता रामसिया पटेल
313	3517/1/5/18	0.004	0.004	लालबहादुर पिता राजेन्द्र प्रसाद पटेल
314	3517/1/5/19	0.004	0.004	बालगोविन्द पिता रामसुमिरन पटेल
315	3517/1/5/20	0.004	0.004	रामसुशील पिता यज्ञभान पटेल
316	3517/1/5/21	0.004	0.004	अमरप्रसाद पिता रामचन्द्र पटेल
317	3517/1/5/22	0.004	0.004	दीपक कुमार पिता सन्त प्रसाद वर्मन
318	3517/1/5/23	0.004	0.004	साधना सिंह पति शैलेन्द्र सिंह
319	3517/1/5/24	0.004	0.004	नन्दलाल पिता रामसिया पटेल
320	3517/1/5/25	0.004	0.004	द्वारका प्रसाद पिता सिहाहीलाल गुप्ता
321	3517/1/5/26	0.004	0.004	रुचि गुप्ता द्वारका प्रसाद
322	3517/1/5/27	0.004	0.004	गोविन्द प्रसाद पिता छोटेलाल पटेल
323	3517/1/5/28	0.004	0.004	हरिहर प्रसाद पिता रामकृपाल पटेल
324	3517/1/5/29	0.004	0.004	सत्यम सिंह पिता विष्णुबहादुर सिंह
325	3517/1/5/30	0.004	0.004	प्रवीण कुमार सिंह पिता गुनिप्रताप सिंह
326	3517/1/5/31	0.004	0.004	ओम प्रकाश सिंह पिता रामेश्वर सिंह
327	3517/1/5/32	0.004	0.004	अमित सिंह पिता अजीतपाल सिंह
328	3517/1/6/1	0.036	0.036	बृजेन्द्र सिंह पिता श्रीनिवास सिंह, संतोष पिता काशी प्रसाद मिश्रा, संतोष कुमारी पत्नी राकेश शुक्ला, राजकुमार पिता सियाशरण बड़ौलिया, सुशीला पिता सुरेश कुमार पाण्डेय
329	3517/1/6/1/2	0.004	0.004	राजेश सिंह पिता त्रिवेणी सिंह
330	3517/1/6/1/3	0.028	0.028	विनीत सिंह पिता बृजेन्द्र सिंह
331	3517/1/6/2	0.032	0.032	विनीत सिंह पिता बृजेन्द्र सिंह
333	3695	0.310	0.310	रामदयाल पिता गंगा प्रसाद, देवमनिया, दुर्घटिया पिता गंगा प्रसाद रामलली पत्नी रास्वरूप, रावेन्द्र, चादुवेन्द्र पिता रामस्वरूप बड़ई
334	3688/1	0.599	0.120	संतोष कुमार पिता धरम दास माली
कुल रकवा		34.358	3.860	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-362-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम	-	नैकिन
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	नैकिन
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकवा 2.493 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे०	अर्जित रकवा	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	401/1/1/2	0.010	0.010	प्रियंका पति दिनकर प्रसाद
2	401/1/1/3	0.010	0.010	ऊषा पति विनोद कुमार
3	413/1/1/1/2	0.010	0.010	रंजीत सिंह पिता कौशल सिंह
4	413/1/1/1/3	0.010	0.010	राहुल पिता कमलेश
5	413/1/1/1/4	0.010	0.010	आराधना पति मोहन लाल शर्मा
6	413/1/2	0.010	0.010	अनिल पिता अरुण मिश्रा
7	413/1/3	0.010	0.010	गायत्री पति सन्तोष सिंह
8	413/1/4	0.010	0.010	रामनारायण पिता राजेन्द्र सिंह
9	413/1/5	0.010	0.010	विकास पिता राजेन्द्र प्रसाद तिवारी
10	449/2/2	0.010	0.010	सतीश कुमार पिता वेणी प्रसाद तिवारी
11	451/1/2	0.010	0.010	त्रिवेणी पिता फूलचन्द्र गुप्ता
12	2342/3/2	0.010	0.010	प्रीती पति सतेन्द्र सिंह
13	2947/1/1/1/3	0.010	0.010	वीरेश सिंह पिता राम कृपाल
14	2947/1/1/1/4	0.010	0.010	मृगेन्द्र सिंह पिता शमशेर सिंह
15	2947/1/1/1/5	0.005	0.005	प्रभा सिंह पति विजय सिंह
16	2947/1/1/1/6	0.010	0.010	सीमा सिंह पति सूर्य प्रताप सिंह
17	2947/1/1/1/7	0.010	0.010	प्रमोद कुमार पिता पुष्पेन्द्र बैस
18	2947/1/1/1/8	0.005	0.005	नरसिंह पिता यज्ञनारायण सिंह
19	2947/1/1/1/9	0.010	0.010	प्रदीप कुमार पिता पन्नेलाल बैस
20	2947/1/1/1/10	0.005	0.005	नागेश्वर पिता राजीव बैस
21	2947/1/1/1/11	0.010	0.010	रमेश प्रसाद पिता छोटेलाल बैस
22	2947/1/1/1/12	0.010	0.010	अशोक सिंह पिता मनोज सिंह
23	2947/1/1/1/13	0.010	0.010	राज कुमार पिता रामाश्रय बैस

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे०	अर्जित रकवा	टिप्पणी
1	2	3	4	5
24	2947/1/1/1/14	0.010	0.010	आनन्द कुमार पिता महेश प्रसाद
25	2947/1/1/1/15	0.010	0.010	योगेन्द्र कुमार पिता वीरेश सिंह
26	2947/1/1/1/16	0.010	0.010	आरती सिंह पति सम्पत्ति कुमार
27	2947/1/1/1/17	0.010	0.010	अनुप सिंह पिता चन्द्रमणि सिंह
28	2947/1/1/1/18	0.010	0.010	शिव प्रसाद पिता दशरथ बैस
29	2947/1/1/1/19	0.010	0.010	धीरेन्द्र सिंह पिता शिव कुमार बैस
30	2357/3/1/2	0.010	0.010	रामनरेश पिता तेजीलाल बैस
31	2947/1/1/1/20	0.005	0.005	जय प्रकाश पिता बाबूलाल बैस
32	2947/1/1/1/21	0.010	0.010	निशा सिंह पिता वीरेश सिंह
33	2947/1/1/1/22	0.010	0.010	मुनेन्द्र सिंह पिता वीरेश सिंह
34	2947/1/1/1/23	0.010	0.010	सन्त कुमार पिता बाबूलाल बैस
35	2947/1/1/1/24	0.005	0.005	आशीष कुमार पिता गणेश सिंह बैस
36	2947/1/1/1/25	0.010	0.010	बलराम पिता माधव प्रसाद
37	2947/1/1/1/26	0.010	0.010	समयलाल पिता छोटेलाल सिंह
38	2947/1/1/1/27	0.010	0.010	रामाश्रय पिता मोतीलाल सिंह
39	2947/1/1/1/28	0.010	0.010	रामबिहारी पिता मोतीलाल बैस
40	2947/1/1/1/29	0.010	0.010	संजय सिंह पिता दया सिंह
41	2947/1/1/1/30	0.010	0.010	सूर्य कुमार पिता बंश बहादुर
42	2947/1/1/1/31	0.010	0.010	धीरेन्द्र कुमार पिता सूर्य कुमार
43	2947/1/1/1/32	0.010	0.010	रोहित सिंह पिता देवेन्द्र सिंह
44	2947/1/1/1/33	0.010	0.010	लालेन्द्र कुमार पिता रामकृपाल
45	2947/1/1/1/34	0.010	0.010	कृष्ण कुमार पिता शिव कुमार
46	2947/1/1/1/35	0.010	0.010	दशरथ पिता श्यामलाल बैस
47	2947/1/1/1/36	0.010	0.010	बीरेन्द्र कुमार पिता हीरालाल
48	2947/1/1/1/37	0.010	0.010	अजय सिंह पिता महेन्द्र सिंह
49	2947/1/1/1/38	0.010	0.010	देवमणि पिता राम किशोर बैस
50	2947/1/1/1/39	0.010	0.010	शिवम सिंह पिता इन्द्रपाल सिंह
51	2947/1/1/1/40	0.010	0.010	प्रमोद कुमार पिता अंजनी बैस
52	2947/1/1/1/41	0.010	0.010	शेषमणि पिता रामनारायण बैस
53	2947/1/1/1/42	0.010	0.010	विनय सिंह पिता रामाधार
54	2947/1/1/1/43	0.010	0.010	रामचन्द्र पिता नन्द कुमार बैस
55	2947/1/1/1/44	0.010	0.010	दीपक कुमार पिता गीता बैस
56	2947/1/2/1/5	0.010	0.010	यज्ञनारायण पिता रोहणी प्रसाद
57	2947/1/2/1/6	0.005	0.005	राज बहादुर पिता रामरूप सिंह
58	2947/1/2/1/7	0.010	0.010	भूपेन्द्र पिता रामरहीश पाण्डेय
59	2947/1/2/1/8	0.010	0.010	ज्ञानेश्वरी पिता वृन्दावन बैस
60	2947/1/2/1/9	0.010	0.010	वृन्दावन पिता गजाधर बैस
61	2947/1/2/1/10	0.010	0.010	सिद्ध प्रताप पिता दशरथ बैस

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे०	अर्जित रकवा	टिप्पणी
1	2	3	4	5
62	2947/1/2/1/21	0.010	0.010	राम सिरोमणि पिता रामसजीवन बैस
63	2947/1/2/1/22	0.010	0.010	हरिशंकर पिता यज्ञनारायण बैस
64	2947/1/2/1/23	0.010	0.010	रमेश पिता श्यामलाल बैस
65	2947/1/2/1/24	0.010	0.010	मोहन लाल पिता गया प्रसाद बैस
66	2947/1/2/1/25	0.010	0.010	विकास सिंह पिता मोहन लाल बैस
67	2947/1/2/1/26	0.010	0.010	अशोक कुमार पिता जयराम बैस
68	2947/1/2/1/27	0.010	0.010	दीपनारायण पिता रामलाल बैस
69	2947/1/2/1/28	0.010	0.010	बलवन्त पिता माधव प्रसाद बैस
70	2947/1/2/1/29	0.010	0.010	कृष्णकान्त पिता रामलाल बैस
71	2947/1/2/1/30	0.010	0.010	रावेन्द्र पिता जुगुल किशोर बैस
72	2947/1/2/2	0.010	0.010	लालमणि पिता बीरन कोल
73	2947/1/2/3	0.010	0.010	सन्तोष कुमार पिता भैयालाल
74	2947/1/2/5	0.010	0.010	नागेन्द्र कुमार पिता हीरालाल बैस
75	2947/1/2/6	0.010	0.010	मनोज कुमार पिता रामलाल बैस
76	2947/1/2/7	0.010	0.010	विनोद पिता भागवत बैस
77	2947/1/2/8	0.010	0.010	पुष्पा पति राज कुमार बैस
78	2947/1/2/9	0.010	0.010	रामराज पिता श्यालाल बैस
79	2947/1/2/10	0.010	0.010	पुष्पेन्द्र कुमार पिता सुरेश बैस
80	2947/1/2/13	0.010	0.010	नन्द कुमार पिता रामदुलारे बैस
81	2947/1/2/14	0.010	0.010	बीरेन्द्र पिता लालमणि बैस
82	2947/1/2/15	0.010	0.010	जीवेन्द्र सिंह पिता जमुना सिंह
83	2947/1/2/16	0.010	0.010	मनीष पिता राम प्रसाद पाण्डेय
84	2947/1/2/17	0.010	0.010	मनीष पिता अजयराज सिंह
85	2947/1/2/18	0.005	0.005	ज्ञानेन्द्र पिता रंग बहादुर सिंह
86	2947/1/2/19	0.005	0.005	जीवेन्द्र सिंह पिता रंग बहादुर सिंह
87	2941/1/5	0.006	0.001	सचिन कुमार पिता अखिलेश कुमार मिश्रा
88	2947/1/2/20	0.005	0.005	रंजना पिता रामभुवन पाण्डेय
89	2692/1/1/2	0.010	0.010	प्रियंका पिता गणेश सिंह
90	2692/1/1/3	0.010	0.010	नन्द कुमार पिता हनुमान प्रसाद
91	2692/1/1/4	0.010	0.010	उपेन्द्र कुमार पिता देवमणि बैस
92	3065/3/2	0.010	0.001	ममता पति धमेन्द्र तोमर
93	3065/4/2	0.010	0.001	आनन्द पिता हरिदास तोमर
94	2696/4	0.010	0.002	राजित राम पिता रामपाल बैस
95	2696/5	0.010	0.002	पावेन्द्र पिता जुगुल किशोर बैस
96	2696/6	0.010	0.002	राजकिशोर पिता रामयश बैस
97	2696/7	0.010	0.001	अंकिता पिता रोशनलाल बैस
98	398/1/1/2/2	0.010	0.005	रामलल्लू पिता अयोध्या प्रसाद
99	398/1/1/2/1	0.010	0.005	ठाकुर प्रसाद पिता अयोध्या प्रसाद यादव

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे०	अर्जित रकवा	टिप्पणी
1	2	3	4	5
100	2507/2	0.010	0.010	स्वप्निल पिता रंजीत सिंह
101	2948/1/1/3	0.010	0.001	विवेक निगम पिता अमृत लाल निगम
102	2941/1/6	0.006	0.001	धीरेन्द्र प्रसादर पिता अंगीरा प्रसाद
103	2947/1/2/11	0.010	0.010	शिवम कुमार पिता प्रमोद कुमार बैस
104	2947/1/1/2	0.020	0.020	रामानन्द पिता राजेन्द्र बैस
105	2947/1/1/3	0.020	0.020	पूर्णिमा पिता राजेन्द्र बैस
106	2947/1/1/4	0.020	0.020	शशी पिता राजेन्द्र बैस
107	2947/1/2/1/2	0.020	0.020	कपिल देव पिता नागेन्द्र कुमार
108	2947/1/2/1/3	0.020	0.020	किशन पिता नागेन्द्र कुमार
109	2947/1/2/1/4	0.020	0.020	श्रीमती रमादेवी पिता नागेन्द्र कुमार
110	2947/2/1/1	0.370	0.260	बृजेश कुमार पिता मोहन लाल
111	2947/2/1/2	0.240	0.240	विनय कुमार मोहन लाल
112	2947/2/1/5	0.040	0.040	श्रीमती आशा पिता मोहन लाल बैस
113	2947/2/1/4	0.040	0.040	सीता बाई पिता मोहन लाल
114	2932/1/1	0.023	0.023	सुशीला पिता जानकी प्रसाद
115	2932/1/2	0.030	0.030	रबिता पिता जानकी प्रसाद
116	2932/1/3	0.040	0.040	अनीता पिता जानकी प्रसाद
117	2932/1/4	0.040	0.040	घर्मेन्द्र पिता जानकी प्रसाद
118	2932/1/5	0.040	0.040	पुष्पेन्द्र पिता जानकी प्रसाद
119	2933/1/1	0.030	0.030	सुशीला पिता जानकी प्रसाद
120	2933/1/2	0.030	0.030	रबिता पिता जानकी प्रसाद
121	2933/1/3	0.011	0.011	अनीता पिता जानकी प्रसाद
122	2693/2	0.040	0.040	दिव्या सिंह पिता राम कल्याण बैस
123	2693/3	0.040	0.040	दीक्षा सिंह पिता राम कल्याण बैस
124	2693/4	0.040	0.040	दीप्ती पिता राम कल्याण बैस
125	2693/5	0.040	0.040	आकाश सिंह पिता राम कल्याण बैसवार
126	2948/2/1	0.030	0.030	बृजेश कुमार पिता मोहन लाल बैस
127	2948/2/2	0.030	0.030	विनय कुमार मोहन लाल
128	2948/2/3	0.040	0.030	कृष्ण कुमार पिता मोहन लाल बैस
129	3001/1	0.550	0.047	मु० श्यामबाई बेवा महेश प्रसाद निगम, रविशंकर, शिव शंकर, मनोज कुमार पिता महेश प्रसाद निगम
130	2947/2/1/3	0.370	0.175	कृष्ण कुमार पिता मोहन लाल बैस
131	2947/2/1/6	0.040	0.040	श्रीमती निर्मला बाई पुत्री मोहन लाल बैस
132	2499	0.580	0.010	मुखतार सिंह पिता विश्राम सिंह 1/2, सुभद्रा बेवा कुंज बिहारी सिंह 1/4, राजेश सिंह पिता कुंज बिहारी सिंह 1/4
133	2692/1/1/1/1	0.111	0.111	रामकल्याण सिंह पिता बद्री प्रसाद सिंह
134	2494/1	0.005	0.004	जगदीश पिता रामेश्वर बैस
135	2494/2	0.010	0.010	जगजीवन पिता रामेश्वर बैस
136	2494/3	0.005	0.005	काशी प्रसाद बैस पिता रामेश्वर बैस
कुल अर्जित रकवा		3.962	2.493	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2024

क्र. बी-1001-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार (जिला स्थापना), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 3487-इक्कीस-ब (एक)-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-20 ए के अनुसार - श्री शुक्ला को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2024 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. अर्जित अवकाश	-	300
अर्द्धवेतन अवकाश	-	00
		योग 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 300 दिवस का
पूर्ण अवकाश
वेतन

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश
अर्धवेतनिक वेतन अनुज्ञेय+मंहगाई भत्ता
अवकाश के एवज = _____ X 00
में नगद भुगतान 30

क्र. बी-1003-दो-2-18-2022.- श्री रूपम वेदी, रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 18 मार्च 2022 से 17 मार्च 2024 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्र. A-3020-दो-2-18-2022.- श्री रूपम वेदी, रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 4 से 6 अप्रैल 2024 तक तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रूपम वेदी, रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रूपम वेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

ORDER

Jabalpur the 8th April 2024

No. 77-CJ-II-1872- WHEREAS, an enquiry has been ordered to be initiated against Shri Kapil Dev Kachhi, I Civil Judge, Junior Division, Narsinghgarh, District Rajgarh for showing act of grave misconduct and misuse of powers.

AND WHEREAS, looking to the seriousness and nature of the allegations constituting a grave misconduct and to obviate the possibility of tampering with the evidence and witnesses etc. and for ensuring a free and fair enquiry, it is required to place the judicial officer under suspension.

THEREFORE, in exercise of powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of M.P. Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules 1966 and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri Kapil Dev Kachhi, I Civil Judge, Junior Division, Narsinghgarh District Rajgarh, under suspension with immediate effect with the headquarters at Sidhi during the period of suspension.

He is further directed to report to the Principal District & Session Judge, Sidhi in Compliance of the order.

As directed, the orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

By the order of the High Court Jabalpur,
HEMANT JOSHI, Principal Registrar (Vigilance).

जबलपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्र. बी-1128-दो-2-16-2022.- श्री राजाराम भारतीय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 1 से 4 अप्रैल 2024 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजाराम भारतीय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजाराम भारतीय उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. बी-1130-दो-2-38-2021.- श्री के. एस. बारिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 2 से 4 अप्रैल 2024 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. बारिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. बारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. बी-1132-दो-2-31-2018.- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है -

1. दिनांक 2 से 4 अप्रैल 2024 तक तीन दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 2 से 4 अप्रैल 2024 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. बी-1134-दो-2-115-2017.- श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह को दिनांक 22 से 25 अप्रैल 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनी नंदन जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3300-दो-2-51-2021.- श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 8 से 16 अप्रैल 2024 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 अप्रैल 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3302-दो-2-56-2021.- श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 10 से 16 अप्रैल 2024 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 अप्रैल 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-3304-दो-2-16-2022.- श्री राजाराम भारतीय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2024

क्र. C-3385-दो-2-41-2017.- श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली मुख्यालय बैङ्कन को दिनांक 10 से 20 अप्रैल 2024 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 अप्रैल 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली मुख्यालय बैङ्कन को सिंगरौली मुख्यालय बैङ्कन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3387-दो-2-56-2021.- श्रीमती सविता सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 15 से 20 अप्रैल 2024 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 अप्रैल 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 21 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-3389-दो-2-38-2020.- श्री अरुण कुमार वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 22 से 27 अप्रैल 2024 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 अप्रैल 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2024

क्र. A-3164-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री सुरेश चन्द्र पाल, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 3487-21-ब(एक)2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-20ए के अनुसार - श्री पाल की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2024 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. अर्जित अवकाश	—	259
अर्द्धवेतन अवकाश	—	41
		<u>योग 300 दिवस</u>

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 259 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश अर्धवेतनिक वेतन अनुज्ञेय+मंहगाई भत्ता अवकाश के एवज = $\frac{\text{वेतन अनुज्ञेय+मंहगाई भत्ता}}{30} \times 41$ में नगद भुगतान

क्र. B-1203-दो-2-31-2018.- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-

- दिनांक 8 अप्रैल 2024 का, दिनांक 10 अप्रैल 2024 का एवं दिनांक 12 से 13 अप्रैल 2024 तक का कुल चार दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
- दिनांक 8 से 13 अप्रैल 2024 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-1205-दो-2-26-2023.- श्रीमती माया विश्वलाल, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 12 से 29 फरवरी 2024 तक 18 दिन का स्वीकृत संतान पालन अवकाश (Child Care Leave), उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. B-1207-दो-2-22-2023.- श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 8 से 13 अप्रैल 2024 तक छः दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-1209-दो-2-42-2022.- श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 6 से 8 मई 2024 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-3353-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री अभय कुमार (सक्सेना), सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवंबर 2018 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-7157, दिनांक 11 दिसंबर 2018 निरस्त किया जाता है.

क्र. C-3355-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री अभय कुमार (सक्सेना), सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 3487-इक्कीस-ब (एक)-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-20ए के अनुसार - श्री अग्रवाल की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवंबर 2018 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. अर्जित अवकाश	-	259
अर्धवेतन अवकाश	-	41
		<u>योग 300 दिवस</u>

- उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

(i) अर्जित अवकाश के एवज = 259 दिवस का
में भुगतान पूर्ण अवकाश
वेतन

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश
अर्धवेतनिक वेतन अनुज्ञेय+मंहगाई भत्ता
अवकाश के एवज = $\frac{\text{---}}{\text{---}}$ X 41
में नगद भुगतान 30

क्र. C-3357-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री अनिल कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 3487-इक्कीस-ब(एक)-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-20ए के अनुसार - श्री अग्रवाल की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. अर्जित अवकाश	-	201
अर्धवेतन अवकाश	-	99
		<u>योग 300 दिवस</u>

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में = 201 दिवस का
भुगतान पूर्ण अवकाश
वेतन

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा
अर्धवेतनिक अवकाश वेतन अनुज्ञेय+मंहगाई भत्ता
अवकाश के एवज = $\frac{\text{---}}{\text{---}}$ X 99
में नगद भुगतान 30

क्र. C-3359-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री अनिल कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-5508, दिनांक 17 नवम्बर 2022 निरस्त किया जाता है.

क्र. C-3361-दो-2-37-2020.- श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 12 से 18 अप्रैल 2024 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 अप्रैल 2024 को घोषित लोक सभा चुनाव के अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3363-दो-2-46-2023.- श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 8 से 10 अप्रैल 2024 तक तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2024

क्र. B-1218-चार-8-42-77-भाग-बारह.- श्रीमती गीता सोलंकी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 22 से 30 अप्रैल 2024 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती गीता सोलंकी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती गीता सोलंकी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.

जबलपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2024

क्र. A-3093.— श्री आर. के. शर्मा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को रजिस्ट्रार (एम) के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रू. 37400-67000 + ग्रेड पे रू. 8700 (7 वें वेतनमान में लेवल 15 पे मेट्रीक्स 123100-215900) में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदोन्नत करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर इस शर्त के साथ पदस्थ किया जाता है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से दस दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. निर्धारित समयवधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहने पर उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोज कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर इंदौर, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्र. अवकाश.— श्री एम.व्ही.आर. बालाजी सर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 30 मार्च से 6 अप्रैल 2024 तक आठ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 24 से 29 मार्च 2024 तक एवं अवकाश के पश्चात् दिनांक 7 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. व्ही. आर. बालाजी सर्मा यदि अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), के पद पर पदस्थ रहते.

क्र. अवकाश.— श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 12 मार्च से 23 मार्च 2024 तक बारह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 24 से 29 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), के पद पर पदस्थ रहते.

इंदौर, दिनांक 25 अप्रैल 2024

क्र. अवकाश.— श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कंट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 13 से 16 अप्रैल 2024 तक चार दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 17 अप्रैल 2024 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कंट्रोलर, अकाउंट्स, के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.